



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

15 चैत्र 1934 (श0)  
(सं0 पटना 143) पटना, बुधवार, 4 अप्रील 2012

---

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

20 मार्च 2012

सं0 निग/सारा-4-(पथ) आरोप-72/09-3149 (एस)—श्री अनिल कुमार शर्मा, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, किशनगंज को पथ प्रमंडल, किशनगंज के पदस्थापन काल में बरती गयी अनियमितता के लिए अधिसूचना संख्या 9971, सह-पठित ज्ञापांक-9972, दिनांक 09.09.09 द्वारा निलंबित किया गया तत्पश्चात आरोप प्रपत्र "क" गठित करते हुए विभागीय पत्रांक-12575 (एस) अनु0, दिनांक 09.11.09 द्वारा श्री शर्मा से बचाव बयान की मांग की गयी। श्री शर्मा द्वारा समर्पित बचाव बयान पत्रांक-शून्य, दिनांक 20.11.09 की विभागीय समीक्षोपरांत संतोषजनक नहीं मानते हुए पुनः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के आलोक में पत्रांक-96 (एस), दिनांक 04.01.10 द्वारा बचाव बयान की मांग की गयी। श्री शर्मा द्वारा समर्पित बचाव बयान को अस्वीकार योग्य पाते हुए अधिसूचना संख्या 4323 (एस), दिनांक 25.03.10 द्वारा निलंबन मुक्त करते हुए निम्न दंड संसूचित किया गया :-

(i) दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) निन्दन (आरोप वर्ष 2008-09)

तथा निलंबन अवधि के संबंध में विभागीय पत्रांक-4782 (एस), दिनांक 31.03.10 द्वारा श्री शर्मा से कारण पृच्छा कर उसे स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए अधिसूचना संख्या 9199 (एस), दिनांक 18.06.10 द्वारा "निलंबन अवधि में देय जीवन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा" का निर्णय लिया गया, परन्तु उक्त अधिसूचना में निलंबन

अवधि के अन्य प्रयोजन के संबंध में निर्णय नहीं लिया जा सका। श्री शर्मा ने उक्त के तरफ अपने पत्रांक शून्य दिनांक 16.01.12 द्वारा ध्यानाकृष्ट किया।

तदआलोक में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 9199 (एस), दिनांक 18.06.10 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न निर्णय लिया जाता है :-

(i) "निलंबन अवधि में देय जीवन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि को अन्य प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में परिगणित की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के उप-सचिव (निगरानी)।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 143-571+10-डी0टी0पी0।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**